



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. 1-4,
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.com
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

SEC-1/187(2)/2022/ 811

Dated: July 14, 2022

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: Submission of requisite documents for claiming exemption from TDS or deduction of tax at lower rates, on dividend to be paid to shareholders.

Dear Sir/Madam,

This is in furtherance to our earlier letters dated May 13, 2022 and June 30, 2022 *inter-alia* intimating about decisions of the Board of Directors for recommendation of final dividend @ ₹4.80 per equity share of ₹10/- each for the financial year 2021-22, subject to approval of shareholders in the ensuing AGM and fixation of Wednesday, July 13, 2022 as record date for this purpose.

In this regard, it is pertinent to mention that as per provisions of Income tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. However, in case a shareholder wants that his/her tax should be deducted at lower rates or no tax should be deducted, then he/she should submit scanned copy of PAN, form 15G/15H & other requisite documents for the financial year 2022-23, unless already submitted, **on or before July 31, 2022**, through e-mail at einward.ris@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com with copy marked to complianceofficer@recl.in.

No communication on the tax determination/deduction of tax at lower rates shall be entertained after **July 31, 2022**. It is further informed that in case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the requisite details/documents, refund of the excess tax paid may still be claimed at the time of filing income tax return. However, no claim shall lie against the Company for such taxes deducted. Further, shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://incometaxindiaefiling.gov.in>.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

Regional Offices: Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram & Vijaywada

State Offices : Vadodara

Training Centre : REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad